



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2013/माघ 2, 1934

No. 215]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2013/MAGHA 2, 1934

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2013

का.आ. 231(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 8 फरवरी, 2012 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 240(अ), तारीख 6 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, गुजरात राज्य के बनावसकांठा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् डीएनए, तारीख 2 मार्च, 2012 और सन्देश, तारीख 2 मार्च, 2012 में प्रकाशित किया गया था;

और, 24 (चौबीस) आक्षेप प्राप्त हुए थे तथा उन पर विचार किया गया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : बनासकांठा

तालुक का नाम : पालनपुर

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/ ब्लाक सं.	जमीन का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि के स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खोडला	56	खानगी	खेती	0.6452	गुडोल डालीबाई मावाभाई सगीर गुडोल हेतीबाई मावाभाई सगीर गुडोल लाखुबाई मावाभाई सगीर गुडोल रतनबाई मावाभाई सगीर गुडोल चहेराभाई सवाभाई गुडोल हरीभाई राजसंगभाई गुडोल रामसंगभाई राजसंगभाई गुडोल चंपाबेन राजसंगभाई गुडोल बालजीभाई राजसंगभाई गुडोल केसरबेन काजसंगभाई
		52A	खानगी	खेती	1.1439	गुडोल मेधराजभाई वीरसंगभाई गुडोल सुरेशभाई वीरसंगभाई
		61P1	खानगी	खेती	0.8136	गुडोल मानजीभाई जीवाभाई
		62A			0.3270	गुडोल मेधराजभाई वीरसंगभाई गुडोल सुरेशभाई वीरसंगभाई
		62B			0.0192	गुडोल बालजीभाई देवाभाई
		65	खानगी	खेती	0.8149	लोह भीखाभाई छेलाभाई लोह हेतीबेन छेलाभाई लोह आवलबेन छेलाभाई लोह लक्ष्मणभाई उमेदभाई लोह राजसंगभाई उमेदभाई लोह फताभाई मूलजीभाई लोह कानजीभाई मूलाभाई लोह भीनाबेन बेचरभाई
		66	खानगी	खेती	0.9156	आंजणा पारधीभाई भेमजीभाई मोर आंजणा बाबुभाई भेमजीभाई मोर आंजणा भगवानभाई रामसंगभाई मोर आंजणा गोवाभाई रामसंगभाई मोर आंजणा नानजीभाई रामसंगभाई मोर आंजणा हरजीभाई सावजीभाई मोर आंजणा केसाभाई सावजीभाई मोर आंजणा घेसरभाई सावजीभाई मोर आंजणा गोवाभाई सावजीभाई मोर
		67	खानगी	खेती	0.1205	भूटडीया दोहजीभाई प्रेमजीभाई
		68	खानगी	खेती	0.4025	भूटडीया दोहजीभाई प्रेमजीभाई
		69	खानगी	खेती	1.0451	लोह वीरसंगभाई लालाभाई
		95	खानगी	खेती	0.1937	लोह दालुभाई जीवाभाई लोह भीनाबेन नानजीभाई लोह जीताभाई नानजीभाई लोह केसरबेन नानजीभाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						लोह हंसाबेन नानजीभाई
		96	खानगी	खेती	0.1318	लोह बाबुलाल कालुभाई लोह शम्भेसुकुमार प्रकाशचंद्र
		97	खानगी	खेती	0.2226	जुखेल स्तनबेन दालुभाई जुखेल हंसाबेन दालुभाई जुखेल जयसुंगभाई दालुभाई जुखेल सवीताबेन दालुभाई जुखेल मंथुलाबेन दालुभाई
		104	खानगी	खेती	0.8116	झंगी नाथुभाई जसराजभाई झंगी उमीबेन वीरसंगभाई झंगी रुपाबेन वीरसंगभाई झंगी गलभाभाई वीरसंगभाई झंगी कांताबेन वीरसंगभाई झंगी मेधराजभाई वीरसंगभाई झंगी जखलबेन गलभाभाई झंगी शारदाबेन मेधराजभाई
		103	खानगी	खेती	0.8756	झंगी प्रेमजीभाई देवाभाई झंगी चंपाबेन नानजीभाई झंगी भावेशकुमार नानजीभाई झंगी रमेशकुमार नानजीभाई
		111	खानगी	खेती	0.3187	लोह मकतलाल नानजीभाई
		112P1	खानगी	खेती	0.0042	लोह शांतु रुपाभाई लोह घेवरभाई रुपाभाई लोह हंसाबेन मानजीभाई लोह नीखीलभाई मानजीभाई लोह शैलेशभाई मानजीभाई
		116	खानगी	खेती	0.9571	लोह दालुभाई जीवाभाई लोह मीनाबेन लालजीभाई लोह जीताभाई नानजीभाई लोह केसरबेन नानजीभाई लोह हंसाबेन नानजीभाई
		115	खानगी	खेती	0.3623	लोह मीनाबेन दालुभाई
		316/2	खानगी	खेती	0.2845	आंजणा दालुभाई जेठभाई
2	चडोतर	317	खानगी	खेती	1.0138	आंजणा लक्ष्मणभाई जेठभाई आंजणा नरसंगभाई जेठभाई आंजणा भीखाभाई जीवाभाई आंजणा बाबुभाई जीवाभाई आंजणा गलभाभाई जीवाभाई आंजणा सरदारभाई जीवाभाई आंजणा रमेशभाई जीवाभाई
		318P3	खानगी	खेती	0.6798	आंजणा कानजीभाई हीराभाई आंजणा रामसंगभाई हीराभाई आंजणा कालुभाई हीराभाई आंजणा मानजीभाई मोढाभाई
		18P4 P1 P	खानगी	खेती	0.2566	मोढ नरोत्तमदास गोडडदास मोढ ईश्वरलाल गोडडदास मोढ मकतलाल गोडडदास मोढ महेन्द्रकुमार गोडडदास मोढ कमलेशकुमार नरोत्तमदास

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		344/1	खानगी	खेती	1.0705	मुमान हुसैनअली ईस्माईलभाई मुमान अबेदअली ईस्माईलभाई मुमान हुसैनअली ईस्माईलभाई मुमान सकीनाबेन ईस्माईलभाई मुमान हबीबभाई वजीरभाई मुमान साजीदभाई वजीरभाई
		344/2	खानगी	खेती	0.1248	मुमान रहेमानभाई नुराभाई
		345	खानगी	खेती	0.9677	प्रजापती अमृतभाई हरीभाई प्रजापती हरगोवनभाई हरीभाई प्रजापती उर्मीलाबेन रेवाभाईनी विधवा पत्नी सगीर प्रजापती चीरागभाई रेवाभाई ना वाली उर्मीलाबेन सगीर प्रजापती ज्योतसनाबेन रेवाभाई ना वाली उर्मीलाबेन सगीर प्रजापती नीकाबेन रेवाभाई ना वाली उर्मीलाबेन सगीर प्रजापती दिव्याबेन रेवाभाई ना वाली उर्मीलाबेन
		346	खानगी	खेती	0.6192	पटेल हीराभाई गणेशभाई पटेल रमेशभाई गणेशभाई पटेल नाथीबेन नरसीहभाई पटेल मंजुलाबेन नरसीहभाई पटेल महेन्द्रभाई नरसीहभाई पटेल उर्मीलाबेन नरसीहभाई पटेल कल्पेशनरसीहभाई पटेल कल्पना नरसीहभाई
		347	खानगी	खेती	1.5748	पटेल बाबुभाई हेमराजभाई पटेल धनराजभाई हेमराजभाई पटेल शांतीभाई हेमराजभाई
		352	खानगी	खेती	1.1839	आंजणा गणेशभाई सोमाभाई आंजणा नीताबेन सोमाभाई आंजणा शांताबेन सोमाभाई आंजणा अंबारामभाई जीवाभाई आंजणा मंगुबेन जीवाभाई आंजणा बाबुभाई जीवाभाई आंजणा ताराबेन जीवाभाई आंजणा ईजुबेन जीवाभाई आंजणा शांतीबेन जीवाभाई आंजणा चंपाबेन जीवाभाई आंजणा मणीबेन जेसुंगभाई आंजणा जेठेबेन जेसुंगभाई आंजणा वीरुबेन जेसुंगभाई आंजणा लीलाबेन जेसुंगभाई आंजणा पुरीबेन जेसुंगभाई आंजणा भागीबेन जेसुंगभाई
		353/2P1	खानगी	खेती	0.2909	पंचाल शाकारभाई हरीभाई पंचाल मोतीबेन करसनभाई पंचाल हीराभाई करसनभाई पंचाल नरभेराम करसनभाई पंचाल गोडडभाई अमाराभाई पंचाल मोहनभाई रामचंदभाई पंचाल हेमचंदभाई दलाजभाई पंचाल मणूलाल गलभाभाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						पंचाल सुशीभाई गलभाभाई पंचाल विक्रमभाई गलभाभाई पंचाल डाह्याभाई गलभाभाई पंचाल मनीबेन भेमाभाई पंचाल हरगोचनदास भेमाभाई पंचाल कांताबेन भेमाभाई पंचाल सवीताबेन भेमाभाई
		353/IP1	खानगी	खेती	0.5744	आंजणा गणेशभाई सोमाभाई आंजणा जीवाभाई गोड्डभाई
		353/IP2	खानगी	खेती	0.2460	पटेल कैडवा रमेशभाई करसनभाई
		365	खानगी	खेती	1.3529	पटेल पायलबेन मगनभाई पटेल वालीबेन शंकरलाल पटेल हेमाबेन मानाभाई
		364P1/P1	खानगी	खेती	0.5876	आंजणा छेलाभाई हीराभाई आंजणा जितुबेन योसाजीभाईनी विधवा
		364P3	खानगी	खेती	0.9123	थेबाट रमणभाई केवलदास (पटेल) थेबाट अमृतलाल केवलदास (पटेल)
		442	खानगी	खेती	0.6623	आंजणा पारधीभाई छेलाभाई आंजणा गीताबेन कालुभाई आंजणा लीलाबेन कालुभाई आंजणा हंसाबेन कालुभाई आंजणा बालुभाई कालुभाई आंजणा मीनाबेन कालुभाईनी विधवा
		441	खानगी	खेती	0.4807	पटेल बेचरभाई देवचंदभाई पटेल बेचरभाई जीवरायभाई पटेल विनेशभाई कानजीभाई पटेल धीरेन्द्रकुमार बेचरभाई
		440P1	खानगी	खेती	0.1117	पटेल मेधराजभाई छेलाभाई
		440P2	खानगी	खेती	0.5873	पटेल पारधीभाई छेलाभाई

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/4-वेस्टर्न कॉरीडोर]

ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

323 GI/13-2

**MINISTRY OF RAILWAYS**

(RAILWAY BOARD)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2013

**S.O. 231(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 240(E), dated the 6<sup>th</sup> February, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8<sup>th</sup> February, 2012 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, DNA, dated the 2<sup>nd</sup> March, 2012 and Sandesh, dated the 2<sup>nd</sup> March, 2012 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, 24 (Twenty-four) number of objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Name of the District : Banaskantha

Name of the Taluk : Palanpur

Serial Number	Name of the Village	Survey Number/Block Number	Type of the Land	Nature of the Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owners / Interested Persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Khodla	56	Private	Agriculture	0.6452	Gudol Dalibai Mavabhai Sagir Gudol Hetibai Mavabhai Sagir Gudol Lakhubai Mavabhai Sagir Gudol Ratanbai Mavabhai Sagir Gudol Chehrabhai Savabhai Gudol Haribhai Rajsanghbhai Gudol Ramsunghbhai Rajsanghbhai Gudol Champaben Rajsanghbhai Gudol Valjibhai Rajsanghbhai Gudol Kesarben Rajsanghbhai
		52a	Private	Agriculture	1.1439	Gudol Meghrajibhai Virsanghbhai Gudol Sureshbhai Virsanghbhai
		61pl	Private	Agriculture	0.8136	Gudol Manjibhai Jivabhai
		62a	Private	Agriculture	0.3270	Gudol Meghrajibhai Virsanghbhai Gudol Sureshbhai Virsanghbhai
		62b	Private	Agriculture	0.0192	Gudol Valjibhai Devabhai
		65	Private	Agriculture	0.8149	Loh Bhikhabhai Chelabhai Loh Hetiben Chelabhai Loh Avalben Chelabhai Loh Laxmanbhai Umedbhai Loh Rajsanghbhai Umedbhai Loh Fatabhai Muljibhai Loh Kanjibhai Muljibhai Loh Menaben Becharbhai
		66	Private	Agriculture	0.9156	Aanjna Parthibhai Bhemjibhai Mor Aanjna Babubhai Bhemjibhai Mor Aanjna Bhagwanbhai Ramsunghbhai Mor Aanjna Gowabhai Ramsunghbhai Mor Aanjna Nanjibhai Ramsunghbhai Mor Aanjna Harjibhai Savjibhai Mor Aanjna Keshabhai Savjibhai Mor Aanjna Dhemarabhai Savjibhai Mor Aanjna Gowabhai Savjibhai Mor
		67	Private	Agriculture	0.1205	Bhutdiya Dohjibhai Premjibhai
		68	Private	Agriculture	0.4025	Bhutdiya Dohjibhai Premjibhai
		69	Private	Agriculture	1.0451	Loh Virsanghbhai Lalabhai
		95	Private	Agriculture	0.1937	Loh Dalubhai Jivabhai Loh Menaben Nanjibhai Loh Jitabhai Nanjibhai Loh Kesarben Nanjibhai Loh Hansaben Nanjibhai
		96	Private	Agriculture	0.1318	Loh Babulal Kalubhai Loh Shwetanshukumar Prakashchandra
		97	Private	Agriculture	0.2226	Judol Ratanben Dalubhai Judol Hansaben Dalubhai Judol Jaysunghbhai Dalubhai Judol Savitaben Dalubhai Judol Manjulaben Dalubhai

323 GI/13-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		104	Private	Agriculture	0.8116	Dangi Nathubhai Jashrajibhai Dangi Umiben Virasanghbhai Dangi Rupaben Virasanghbhai Dangi Galbabbhai Virasanghbhai Dangi Kantaben Virasanghbhai Dangi Meghabhai Virasanghbhai Dangi Javalben Galbabbhai Dangi Shardaben Meghrajibhai
		103	Private	Agriculture	0.8756	Dangi Premjibhai Devabhai Dangi Champaben Nanjibhai Dangi Bhaveshkumar Nanjibhai Dangi Rameshkumar Nanjibhai
		111	Private	Agriculture	0.3187	Loh Mafatlal Nanjibhai
		112P1	Private	Agriculture	0.0042	Loh Shantu Rupabhai Loh Dhemarabhai Rupabhai Loh Hansaben Nanjibhai Loh Nikhilbhai Nanjibhai Loh Shaileshbhai Nanjibhai
		116	Private	Agriculture	0.9571	Loh Dalubhai Jivabhai Loh Menaben Nanjibhai Loh Jitabhai Nanjibhai Loh Kesaben Nanjibhai Loh Hansaben Nanjibhai
		115	Private	Agriculture	0.3623	Loh Manaben Dalubhai
2.	Chadotar	316/2	Private	Agriculture	0.2845	Aanjana dalubhai Jethabhai
		317	Private	Agriculture	1.0138	Anjana Lakshamanbhai Jethabhai Anjana Narsangbhai Jethabhai Anjana Bhikhabhai Jivabhai Anjana Babubhai Jivabhai Anjana Galbabbhai Jivabhai Anjana Sardarbhai Jivabhai Anjana Rameshbhai Jivabhai
		318p3	Private	Agriculture	0.6798	Anjana Kanjibhai Hirabhai Anjana Ramsungbhai Hirabhai Anjana Kalubhai Hirabhai Anjana Manjibhai Modhabhai
		318p4 p1 p1	Private	Agriculture	0.2566	Modh Narottamdas Godaddas Modh Ishwarlal Narottamdas Modh Mafatlal Narottamdas Modh Mahendrakumar Narottamdas Modh Kamleshkumar Narottamdas
		344/1	Private	Agriculture	1.0705	Muman Husenali Ismailbhai Muman Abedali Ismailbhai Muman Husenaben Ismailbhai Muman Shakinaben Ismailbhai Muman Habibbhai Vajirbhai Muman Sajidbhai Vajirbhai
		344/2	Private	Agriculture	0.1248	Muman Rahemanbhai Nurabhai
		345	Private	Agriculture	0.9677	Prajapati Amutbhai Haribhai Prajapati Hargovanbhai Haribhai Prajapati Urmilaben Revabhai vidhya patni vali of minor Prajapati Chiragbhai Revabhai Urmilaben Vali of Minor Prajapati Jyotsnaben Revabhai Urmilaben Vali of Minor Prajapati Nikaben Revabhai Urmilaben Vali of Minor Prajapati Divyaben Revabhai Urmilaben
		346	Private	Agriculture	0.6192	Patel Hirabhai Ganeshbhai Patel Rameshbhai Ganeshbhai Patel Nathiben Narsinhbhai Patel Manjulaben Narsinhbhai Patel Mahendrabhai Narsinhbhai Patel Urmilaben Narsinhbhai Patel Kalpesh Narsinhbhai Patel Kalpana Narsinhbhai
		347	Private	Agriculture	1.5748	Patel Babubhai Hemrajibhai Patel Dhanrajibhai Hemrajibhai Patel Shantibhai Hemrajibhai



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		352	Private	Agriculture	1.1839	Anjana Ganeshbhai Somabhai Anjana Neetaben Somabhai Anjana Shantaben Somabhai Anjana Ambarambhai Jivabhai Anjana Manguben Jivabhai Anjana Babubhai Jivabhai Anjana Taraben Jivabhai anjana Ejuben Jivabhai Anjana Shantibhai Jivabhai Anjana Champaben Jivabhai Anjana Maniben Jesungbhai Anjana Jethiben Jesungbhai Anjana Viruben Jesungbhai Anjana Leelaben Jesungbhai Anjana Puriben Jesungbhai Anjana Bhagiben Jesungbhai
		353/2p1	Private	Agriculture	0.2909	Panchal Shakarbhai Haribahi Panchal Motibhai Karshanbhai Panchal Hirabhai Karshanbhai Panchal Narbheram Karshanbhai Panchal Godadbhai Amarabhai Panchal Mohanbhai Ramchandbhai Panchal Hemchandbhai Dalchabhai Panchal Manilal Galbabbhai Panchal Shushibhai Galbabbhai Panchal Vitthalbhai Galbabbhai Panchal Dahyabhai Galbabbhai Panchal Maniben Bhembabbhai Panchal Hargovandas Bhembabbhai Panchal Kantaben Bhembabbhai Panchal Savitaben Bhembabbhai
		353/1p1	Private	Agriculture	0.5744	Anjana Ganeshbhai Somabhai Anjana Jivabhai Godadbhai
		353/1p2	Private	Agriculture	0.2460	Patel Kaidva Rameshbhai Karshanbhai
		365	Private	Agriculture	1.3529	Patel Payalben Maganbhai Patel Valiben Shankarlal Patel Hemaben Manabhai
		364p1/p1	Private	Agriculture	0.5876	Anjana Chelabhai Hirabhai Anjana Jituben widow of Doshajibhai
		364p3	Private	Agriculture	0.9123	Thebhat Ramanbhai Kevaldas (Patel) Thebhat Amruttal Kevalal (Patel)
		442	Private	Agriculture	0.6623	Anjana Parthibhai Chelabhai Anjana Geetaben Kalibhai Anjana Leelaben Kalubhai Anjana Hansaben Kalubhai Anjana Dalubhai Kalubhai Anjana Menaben Kalubhai ni Vidhva
		441	Private	Agriculture	0.4807	Patel Becharbhai Devchandbhai Patel Becharbhai Jivrambhai Patel Dineshbhai Kanjibhai Patel Dhirendrakumar Becharbhai
		440p1	Private	Agriculture	0.1117	Patel Meghrajibhai Chelabhai
		440p2	Private	Agriculture	0.5873	Patel Parthibhai Chelabhai

[F. No. 2010/LML/12/4-Western Corridor]

O. P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-1)